

Shri P. N. Kayal: May I know why no representative of the labour has been taken on this body?

Shri Raj Bahadur: Essentially it is a matter of road safety in which all citizens, and not any particular faction or element in society, are interested.

Shri Tulshidas Jadhav: May I know whether the Government has given any orders to remove the curves on the roads where always accidents are taking place?

Shri Raj Bahadur: That is a matter which is constantly engaging the attention of the road authorities.

Training Facilities for Royal Nepal Airlines

+

*1118. { **Shri Yashpal Singh:**
Shri N. R. Laskar:

Will the Minister of Transport be pleased to state:

(a) whether the Royal Nepal Airlines Corporation have approached the Government of India for technical assistance for providing training facilities to pilots, engineers and technicians; and

(b) if so, the action proposed to be taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) Royal Nepal Airlines Corporation have approached the Indian Airlines Corporation for technical assistance and training of their Pilots, Engineers and technicians.

(b) Every possible technical help will be given to Rooyal Nepal Airlines Corporation.

श्री यशपाल सिंह : यह ट्रेनिंग हमारे यहां होगी या हमारे ट्रेनर नेपाल में जा कर ट्रेनिंग देंगे ।

श्री मुहोउद्दीन : ज्यादातर ट्रेनिंग तो यहीं होती है ।

श्री यशपाल सिंह : इस का खर्च नेपाल सरकार बदाश्त करेगी या हम को करना पड़ेगा ।

श्री मुहोउद्दीन : यह तो तफसीलात का सवाल है । इस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन में एक हद्द तक खर्च हम ही बदाश्त करते हैं, लेकिन यह तफसीलात हैं जिन के मुताल्लिक मसायल तय नहीं हुए हैं, वे अभी तय होने हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो ट्रेनिंग होगी उस में कितने पाइलट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जा सकेगी और कितने अर्से तक ट्रेनिंग चलेगी ।

श्री मुहोउद्दीन : कितने पाइलट्स को ट्रेनिंग देने का सवाल यहां नहीं है, जैसे जैसे उन को पाइलट्स की जरूरत होगी, उन को ट्रेनिंग दी जायेगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : सवाल यह है कि कितने पाइलट्स एक साथ ट्रेनिंग पायेंगे ।

श्री मुहोउद्दीन : यह तो नेपाल सरकार पर मुनहसर होगा कि कितने पाइलट्स वह भेजते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अपने यहां ट्रेनिंग की कमी रहते हुए भी दूसरे लोगों को, नेपाल के लोगों को, यह ट्रेनिंग दी जायेगी, या पहले अपने यहां की कमी पूरी की जायेगी ।

श्री मुहोउद्दीन : हमारे यहां ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है ।

श्री तन सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि यह जो असिस्टेंस मांगी गई है वह किन शर्तों पर दी जायेगी ।

श्री मुहोउद्दीन : कोई शरायत इसके लिये नहीं है ।

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूँ कि पाइलट्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है उस में कितने दिन लगते हैं ।

श्री मुहीउद्दीन : पाइलट्स को ट्रेनिंग देने की कई स्टेजेज होती हैं। एक तो होता है कि बिल्कुल नया लड़का १८, १९, २० बरस का लड़का जब आता है तो उस की ट्रेनिंग में कम से कम तीन साल लगते हैं, अगर . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर श्री शिव नारायणजी को ट्रेनिंग देनी हो तो कितने दिन लगेगे।

श्री मुहीउद्दीन : अगर वहां पर कोई पाइलट ही पाइलट का इम्तहान पास कर के किसी दूसरे एअरक्राफ्ट की ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है या और मजिद ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उस के लिये थोड़ा वक्त लगेगा।

श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय, क्या पार्लियामेंट में लौंडा कहा जा सकता है।

An Hon. Member: It is not a bad word.

अध्यक्ष महोदय : यह जो लपज है वह अलाहदा अलाहदा मानों में अलाहदा अलाहदा जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप के इलाके में यह काबिलएतराज है तो कई जगहों में इस को इन्वोसेंट समझा जाता है।

Shri S. N. Chaturvedi: May I know whether before accepting to undertake training of Nepalese pilots and technicians the Government did not enquire from the Nepalese Government the number that is going to be trained here in India?

Shri Mohiuddin: Our General Manager was invited to Nepal and he went there in March.

Shri S. N. Chaturvedi: Is it a blank cheque?

Shri Mohiuddin: He went there in March 1964 and they had preliminary discussions. Now, our General Manager has invited the Administrative Officer of the Nepal Airlines to come to Delhi for further discussions of details.

It is neither a crossed cheque nor a blank cheque.

Shri N. R. Laskar: May I know whether any decision has been arrived at as to the time and period to which the scheme will be extended?

Shri Mohiuddin: It is a continuous affair.

श्रीमती जोहराबेन चावदा : मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो पाइलट्स ट्रेनिंग दी जाती है या दी जायेगी उसमें बहनों का क्या परसेन्टेज रहेगा।

श्री मुहीउद्दीन : अगर नेपाल से बहनों आयेंगी तो उन्हें भी ट्रेनिंग दी जायेगी।

Dr. Sarojini Mahishi: May I know the financial implications of technical assistance for providing training facilities to pilots, engineers and technicians of the Nepal Airlines during the year 1964-65?

Shri Mohiuddin: It all depends on the number of pilots.

Co-operative Societies of Delhi

+

*1119. { **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri P. C. Borooah:
Shri Hukam Chand
Kachhavaia:
Shri Kashi Ram Gupta:

Will the Minister of Community Development and Co-operation be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Administration has notified the institution of, or its intention to institute, an inquiry into some Co-operative Societies in the Union Territory of Delhi;

(b) if so, their names;

(c) whether some other Co-operative Societies in the Union Territory have been excluded; and

(d) if so, which, and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and